

QUOTATION

covering the Staff Housing Loan annual renewal of the existing arranged insurance companies paid Policy which will be effective from 1st June 2018. The policy to be sent in a sealed copy to General Manager, PAD, hwar, Mangalore - 575 001", by

Sd/-
Deputy General Manager (PAD)

polymers limited
Bhansalabs, C. D. Barfiwala Road, bhansalabs, Mangalore - 575 001
Website: www.bhansalabs.com
Ph: (91-22) 26216077
PLC032637

29th of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a company is scheduled to be held on Tuesday, the 06th August, 2019, inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter ended 30th June, 2019.

shares of the Company is already declared on Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2019.

on the Company's website at www.nseindia.com

ansal Engineering Polymers Limited
Sd/-
Ashwin M. Patel
Company Secretary & GM (Legal)

products Limited
PLC129806
Bangalore, Eastern Express Highway,
Bangalore - 560022
Hq: 25194359 / 25195427
www.godrejpcp.com

of certificate(s) is/are stated to be lost / thereof / claimant(s) thereto has/have been / claimant(s)

Share Face Value Distinctive Nos. Old Cert No.

30	* 0063795957	0063796016	0522400
00	0068963385	0068863684	0543199
40	0069149393	0069149376	0544845
30	0067199181	0067199240	0532505

88	0060236149	0060236216	0501110
88	0060236081	0060236148	0501109

120	0063545389	0063545508	0520109
300	0061402537	0061403136	0606657
40	0064161229	0064161268	0525689
300	0738231896	0738232159	0574335

190	0067780821	0067780690	0635195
-----	------------	------------	---------

If the said shares/any objection(s) for the above stated applicant(s) has/have any objection(s) of this notice, received by the company in respect of the public is hereby cautioned against officials.

for Godrej Consumer Products Limited
V Srinivasan
Financial Officer & Company Secretary

Asian Paints Limited
Mumbai-400 055
www.asianpaints.com
4220MH1945PLC004598

FINANCIAL RESULTS

(₹ in Crores)

Year Ended	31.03.2019 Audited
2018	16,391.78
2017	13,770.25
2016	13,770.25
2015	12,132.17
2014	2,113.99
2013	95.92
2012	8,747.04
2011	22.23

Year Ended	31.03.2019 Audited
2018	19,349.84
2017	13,304.62
2016	13,304.62
2015	2,208.04
2014	2,194.28
2013	95.92
2012	9,374.63
2011	22.48

Financial Results filed pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and Form of the Statement of Financial Results of the National Stock Exchange of India Limited.

30th June, 2018 have been issued an unmodified opinion for the quarter ended 31st March, 2019 audited financial results.

MEMBERSHIP OF THE BOARD

S. ANAND
DIRECTOR & CEO
03518282

NOTICE

Pursuant to Regulation 29(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 06th August, 2019, inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter ended 30th June, 2019.

Place: Mumbai
Date: 24th July, 2019

For Sulfotextiles and Industries Limited
Company Secretary & Compliance Officer

(Formerly known as Sona Koyo Steering Systems Limited)
(CIN - L29130L1984PLC081416)
Regd. Office: UGF-6, Indraprasth, 21, Barakhamba Road, New Delhi 110001.
Tel. No: 011-23311924, 23327005 E-mail: investor@sebjkt.com.in; Website: www.jkt.com.in

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, that the 168th meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 9th August, 2019, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the first quarter ended 30th June, 2019.

This notice is available on the website of the Company www.jkt.com.in and also on the websites of the stock exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For JTEKT India Limited
Nitin Sharma
Company Secretary



DCM SHRIRAM LTD.
Regd. Office: 1st Floor, Kanchenjunga Building 18, Barakhamba Road, New Delhi-110001.
CIN : L74899DL1989PLC034293; E-mail : response@dcmsriram.com; Website : www.dcmsriram.com
Tel : +91 11 23316801; Fax : +91 11 23318072

FORM DPT-1
CIRCULAR OR CIRCULAR IN THE FORM OF ADVERTISEMENT INVITING DEPOSITS
(Pursuant to section 73 (2)(a) and section 76 of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) and 4(2) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]

1. GENERAL INFORMATION
a. Name, address, website and other contact details of the Company: c. Business carried on by the Company and its subsidiaries with the details of branches or units, if any:
DCM Shiram Limited
CIN No. : L74899DL1989PLC034293
1st Floor, Kanchenjunga Building 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110001. Tel : +91 11-23316801
Fax : +91 11-23318072; Website : www.dcmsriram.com
The Company is engaged in the business of manufacture/sale of Fertilisers, Power, Sugar, PVC Resin, Carbide, Caustic Soda, Cement, Stable Bleaching Powder, Chlorine, Hydro Chloric Acid, Seeds, UPVC Windows and Agri Input Merchandising.

b. Date of incorporation of the Company: 6 February, 1989
The details of the Subsidiaries of the Company are as under:

Sr. No.	Name of the Subsidiaries	Business/ Objects
1.	DCM Shiram Credit and Investments Ltd.	NBFC Company - Non deposit taking category
2.	DCM Shiram Aqua Foods Ltd.	Dealing in Sea Foods
3.	Biosseed India Ltd.	Trading of seeds
4.	DCM Shiram Infrastructure Ltd.	Power projects
5.	Finesta India Ltd.	Manufacture, sale and installation of UPVC windows and doors
6.	Shri Ganpati Fertilizers Ltd.	Fertilizers
7.	Shriram Biosseed Ventures Ltd.	Loans and investments in subsidiaries engaged in seeds business.
8.	DCM Shiram Foundation	Non Profit Organization
9.	Shriram Rural Ventures Foundation	Non Profit Organization
10.	Haryali Rural Ventures Limited	Establishment of retail & wholesale outlets for agri-consumers and household goods/fuel
11.	Shriram Biosseed (Thailand) Ltd., Thailand	Wholesale trading, import and export of Seeds and Agri inputs.
12.	Biosseeds Ltd., Mauritius	Loans and investments in subsidiaries engaged in seeds business.
13.	Biosseeds Holdings Pte. Ltd., Singapore	Loans and investments in subsidiaries engaged in seeds business.
14.	Biosseed Research Philippines Inc., Philippines	Research, production, distribution, and trading of commercial hybrid seeds and other crops
15.	Biosseed Vietnam Ltd., Vietnam	Research and supply of parent seeds, Production and trading of hybrid corn and rice seeds
16.	PT Shriram Seed, Indonesia	Import and distribution of Seeds
17.	PT Shriram Genetics, Indonesia	Production of Seeds in Indonesia.
18.	Biosseed Research USA Inc., USA	Seed and Biotechnology Research

d. Brief particulars of the management of the Company:
The Company is managed by the Managing Directors, subject to the direction, control and superintendence of the Board of Directors.

e. Names, addresses, DIN and occupations of the Directors:

Name	Address	DIN	Occupation
Mr. Ajay S. Shiram	Shivam, A-37, Vasanti Marg, Vasanti Vihar, New Delhi-110057	00027317	Chairman & Senior Managing Director
Mr. Vikram S. Shiram	5/16, Shanti Niketan, New Delhi-110021	00027187	Joint Chairman & Managing Director
Mr. Ajit S. Shiram	5/20, Shanti Niketan, New Delhi-110021	00027918	Joint Managing Director
Mr. K.K. Kaul	6-A, Vallabh Nagar, Kota - 324007, Rajasthan	00980318	Whole Time Director
Mr. K.K. Sharma	Flat No.806, Tower-3, Purvanchal Royal Park, Sector - 137, Noida - 201301, UP	07951296	Whole Time Director (EHS)
Mr. Pradeep Dandia	A-8A, Maharani Bagh, New Delhi-110065	00027995	Chartered Accountant
Mr. Vimal Bhandari	Flat No. 164, 16th Floor, Tower 'A', Kapoor Horizon, S. K. Ahire Marg, Worli Mumbai - 400019	00001318	Service
Mr. Sunil Kant Munjal	29-A, Friends Colony (West), New Delhi - 110065	00003902	Industrialist
Mr. Raman Nirula	A-14, Anand Niketan, New Delhi - 110021	00015330	Ex-Banker
Justice (Retd.) Vikramjit Sen	314-A, First Floor, Friends Colony (East), New Delhi - 110065	00866743	Retired Judge
Mr. Praveesh Sharma	Flat C-2/303, Asian Games Village Complex, Mumbai	02252345	Retired IAS
Mr. Sharad Shrivastva (LIC Nominee)	G-C, Jeevan Jyoti, LIC Officer's Flats, Nepean Sea Road, New Delhi - 110049	01271854	Service

g. Management's perception of risk factors:
The Company has extensive presence across Agri value chain as well as Chloro-vinyl Chain. Hence there are risks associated to monsoons as well as commodity cycles that may impact the profitability. However the Company has comfortable gearing and debt protection metrics and the management believes that given its diversified revenue profile, its profitability and cash accruals will remain stable over the medium term.

h. Details of default, including the amount involved, duration of default and present status, in repayment of -
i) statutory dues; ii) debentures and interest thereon; iii) loan from any bank or financial institution and interest thereon. None

2. PARTICULARS OF THE DEPOSIT SCHEME

a. Date of passing of board resolution: 1.5.2019
b. Date of passing of resolution in the general meeting authorizing the invitation of such deposits: 18.8.2015
c. Type of deposits, i.e., whether secured or unsecured; Unsecured

d. Amount which the Company can raise by way of deposits as per the Act and the rules made thereunder, and the aggregate of deposits actually held on the last day of the immediately preceding financial year and on the date of issue of the Circular or advertisement and amount of deposit proposed to be raised:

DEPOSITS WHICH THE COMPANY CAN RAISE UNDER THE COMPANIES (ACCEPTANCE OF DEPOSITS) RULES, 2014		Rupees/Crores
(i) Deposits from Shareholders under Rule 3(4)(a)		354.91
(ii) Other deposits under Rule 3(4)(b)		887.26
	TOTAL	1242.17
	The aggregate of the deposits actually held under these Rules as on 31st March, 2019	32.16
	The aggregate of the deposits actually held under these Rules as on 1st May, 2019 (date of Board Meeting in which this Circular was issued)	32.16

e. Terms of deposit repayable within the next twelve months: Rs. 0.91 Crore
f. Amount of deposit repayable: Duration, Rate of interest, mode of payment and repayment:
Scheme Cumulative less than 1 (one) crore only for 3 years For Public: 7.75. For Share-holders & Employees: 8.00 (Interest on half yearly rest basis)

g. Proposed time schedule mentioning the date of opening of the Scheme and the time period for which the circular or advertisement is valid:
Date of opening of the Scheme: 25.7.2019.
This circular is valid until the date of next AGM or until the expiry of six months from the date of closure of the financial year 2019-20, whichever is earlier.

h. Reasons or objects of raising the deposits: To meet the business requirements of the Company.
i. Credit rating obtained, Name of the Credit Rating Agencies, Rating obtained, Meaning of the rating obtained, Date on which rating was obtained; None. ICRA: Rating: MAA+ (Stable); Meaning: Stable; Date: 25.5.2018

j. Short particulars of the charge created or to be created for securing such deposits, if any: N.A.
k. Any financial or other material interest of the directors, promoters or key managerial personnel (KMP) in such deposits and the effect of such interest in so far as it differs from the interests of other persons: None. Directors or promoters or KMP may acquire direct interest if and when they make deposit under the Scheme.

3. DETAILS OF ANY OUTSTANDING DEPOSITS

a. Amount Outstanding: As on 31st March, 2019: Rs. 32.16 Crores
b. Date of acceptance: Various dates
c. Total amount accepted and repaid: Rs. 23.80 Crores (during Financial Year 2018-19)

Scheme	Amount of Deposits (in Rs.)	Duration	Rate of Interest (in %)
Cumulative	less than 1 (one) crore	only for 3 years	For Public: 7.75. For Share-holders & Employees: 8.00 (Interest on half yearly rest basis)
	1 (one) crore or more	For 1 year/ 2 years/ 3 years	9.75 (Interest on quarterly rest basis)
Non-cumulative	1 (one) crore or more	For 1 year/ 2 years/ 3 years	9.75 (Interest on quarterly rest basis)

e. Total number of depositors: 85
f. Default, if any, in repayment of deposits and payment of interest thereon, if any, including number of depositors, amount and duration of default involved; None
g. Any waiver by the depositors, of interest accrued on deposits; No

4. FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY

a. Profits of the Company, before and after making provision for tax, for the three financial years immediately preceding the date of issue of circular or advertisement:
b. Dividends declared by the Company in respect of the said three financial years; interest coverage ratio for last three years (Cash profit after tax plus interest paid or interest paid)

Year	Rupees/Crores			Total Dividend (including interim dividend)	2016-17	2017-18	2018-19
	2016-17	2017-18	2018-19				
Profit / (Loss) Before Tax	593.01	885.46	1180.30	290%	410%	490%	
Profit / (Loss) After Tax	527.07	688.44	906.83	Interest coverage Ratio	10.09	11.80	10.27

c. A summary of the financial position of the Company as in the three audited balance sheets immediately preceding the date of issue of circular or advertisement:

EQUITY AND LIABILITIES	As on			ASSETS	As on		
	31.3.2017	31.3.2018	31.3.2019		31.3.2017	31.3.2018	31.3.2019
Share Capital	32.64	32.64	31.35	Fixed Assets	1962.68	2203.58	2894.75
Reserves & Surplus	2507.49	3037.46	3521.41	Non-current Investments	26.07	67.30	74.79
Non-current Liabilities	660.43	743.14	1182.77	Long Term Loans and Advances	254.74	222.33	144.87
Current Liabilities (including liabilities associated with asset classified as held for sale)	2339.00	1832.72	2394.61	Other Non-current Assets	65.68	82.94	118.81
				Current Assets (including assets classified as held for sale)	3230.39	3069.81	3896.92
Total	5539.56	5645.96	7130.14	Total	5539.56	5645.96	7130.14

d. Previous year's figures regrouped, wherever necessary
e. Any change in accounting policies during the last three years and their effect on the profits and the reserves of the Company. The Company adopted Indian Accounting Standards ("IND AS") notified by Ministry of Corporate Affairs w.e.f. 1.4.2016.

5. A DECLARATION BY THE DIRECTORS THAT:

a. The Company has not defaulted in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of the Act or payment of interest on such deposits, and where a default had occurred, the company made good the defaults and a period of five years had lapsed since the date of making good the default.
b. The board of directors have satisfied themselves fully with respect to the affairs and prospects of the Company and that they are of the opinion that having regard to the estimated future financial position of the Company, the Company will be able to meet its liabilities as and when they become due and that the Company will not become insolvent within a period of one year from the date of issue of the circular or advertisement;
c. The Company has complied with the provisions of the Act and the rules made thereunder;
d. The compliance with the Act and the rules does not imply that repayment of deposits is guaranteed by the Central Government;
e. The deposits accepted by the Company before the commencement of the Act have been repaid (or will be repaid along with interest within days (days to be specified) and until they are repaid, they shall be treated as unsecured and ranking pari passu with other unsecured liabilities);
f. In case of any adverse change in credit rating, depositors will be given a chance to withdraw deposits without any penalty.
g. The deposits shall be used only for the purposes indicated in the Circular or circular in the form of advertisement;
h. The deposits accepted by the Company other than the secured deposits, if any, aggregate amount of which is not indicated are unsecured and rank pari passu with other unsecured liabilities of the Company.

6. DISCLAIMER
It is to be distinctly understood that filing of circular or circular in the Form of advertisement with the Registrar should not in any way be deemed or construed that the same has been approved by the Registrar or Central Government. The Registrar or Central Government does not take any responsibility either for the financial soundness of any deposit scheme for which the deposit is being accepted or invited or for the correctness of the statements made or opinions expressed in the circular or circular in the Form of advertisement. The depositors should exercise due diligence before investing in the deposits schemes.
This circular or circular in the form of advertisement inviting deposits (advertisement), the text of which has been approved by the Board of Directors in their meeting held on 1.5.2019, is issued on behalf of the Board of Directors of the Company. A copy of this advertisement duly signed by the majority of Directors of the Company has been filed with Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, New Delhi, for registration.
By order of the Board
Sd/-
(Sameer Gambhir)
Company Secretary (FCS - 4658)

New Delhi
24.7.2019